



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2002/चैत्र 20, 1924

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2002/CHAITRA 20, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 269(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में और भारत सरकार, तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 14 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122(अ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (2) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कालम (1) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है।

तालिका

प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2
पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
सीमा शुल्क विभाग	1
तट रक्षक	1
भारतीय रेल	1
उड़ीसा सरकार	1
पोत परिवहन मंत्रालय	1
मर्केटाइल मैरीन विभाग	1
अन्य हित	3
जोड़	11

[सं. पीटी-18011/12/2001-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2002

G.S.R. 269(E).—In pursuance of Sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 122(E) dated 14th February, 2000, the Central Govt. hereby specifies the number of persons mentioned in column (2) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in Column (1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paradip.

TABLE

Interests to be represented	Number of persons to be appointed
1	2
Labour employed in the Port	2
Department of Customs	1
Coast Guard	1
Indian Railways	1
Govt. of Orissa	1
Ministry of Shipping	1
Mercantile Marine Department	1
Other Interests	3
TOTAL	11

[No. PT-18011/12/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2002

सा. का. नि. 270(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (ii) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारत सरकार, तत्कालीन जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 14 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 123(अ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्न तालिका के कालम (3) में उल्लिखित उन व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में उक्त तालिका के कालम (2) में उल्लिखित प्रत्येक हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना है।

तालिका

क्रम सं.	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	पोतमालिक	1
2.	पोतवणिक	2
3.	अन्य हित	3
	जोड़	6

[सं. पीटी-180011/12/2001-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2002

G.S.R. 270(E).—In pursuance of provisions of Sub-clause (ii) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 123(E) dated 14th February, 2000, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent each of the interests shown in Column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Paradip.

TABLE

S. No.	Interest	Number of persons to be appointed
1	2	3
1.	Shipowners	1
2.	Shippers	2
3.	Other Interest	3
-	Total	6

[No. PT-18011/12/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2002

सा. का. वि. 271(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं. 1 से 5 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को पारादीप पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है अर्थात् :—

तालिका

1.	उप सचिव (पोत सामान्य)	पोत परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
2.	प्रधान अधिकारी, मर्केन्टाइल मैरीन विभाग, कलकत्ता	मर्केन्टाइल मैरीन विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए
3.	श्री अशोक अग्रवाल, श्रीराम भवन, एन एच-5 दहानिगाडिया, चरम्पा, भद्रक, उड़ीसा	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अन्तर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
4.	श्री बी एस कक्कड़, सी-12ए, गंगात्री इन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली-19	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (1) के अन्तर्गत अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
5.	श्री अन्तरायामी पट्टनायक	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अन्तर्गत पारादीप पोर्ट स्टीवडोर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[सं. पीटी-18011/12/2001-पीटी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2002

G.S.R. 271(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1 to 5 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip, namely :—

TABLE

1.	Deputy Secretary (Port General)	Representing Ministry of Shipping.
2.	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.	Representing Mercantile Marine Department.
3.	Shri Ashok Aggarwal, Shreeram Bhawan, NH-5, Dahanigadia, Charampa, Bhadrak, Orissa	Representing other Interests under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.
4.	Shri B.S. Kakkar, C-12A, Gangotri Enclave, Alknanda, New Delhi-19.	Representing other interest under sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963
5.	Shri Antaryami Pattanaik	Representing Paradip Port Stevedores Association under sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of Major Port Trusts Act, 1963.

[No. PT-18011/12/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.